



# Ahluwalia Contracts (India) Limited

ENGINEERING ♦ DESIGNING ♦ CONSTRUCTION

Date: 05-02-2022

To,  
Asst. General Manager  
(Corporate Services)  
BSE Limited,  
25th Floor, P.J.Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400001

Asst. Vice President - Listing,  
National Stock Exchange of India Ltd.  
5th Floor, Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East) Mumbai- 400051

Sub.: Copy of Published Notice for Board Meeting

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Published Notice on 05-02-2022 in Financial Express (English) and in Jansatta (Hindi) for Board of Directors Meeting of the Company will be held on Monday, 14th day of February, 2022 through virtual / video conferencing.

The information is also available on the website of the Company viz. [www.acilnet.com](http://www.acilnet.com) and the website of the Stock Exchange, where the Company's shares are listed viz. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Ltd ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

You are requested to take the same on record and acknowledge the receipt.

Regards,  
Yours faithfully,  
For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

  
(Vipin Kumar Tiwari)  
GM (Corporate) & Company Secretary



Copy to:

To,  
The Manager (Listing), Code : 111134  
Calcutta Stock Exchange Ltd,  
7, Lyons Range,  
Kolkata – 700001

05/02/2022

FINANCIAL EXPRESS

**AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED**  
 Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020  
 (CIN: L45101DL1979PLC009654)  
 Website: www.acinet.com  
 E-mail: cs.corporate@acinet.com

**NOTICE**  
 Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 14th February, 2022 hosted at Regd. Office A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 through virtual video conferencing, inter-alia, to consider the un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2021 (Standalone and Consolidated) with limited review report by the statutory auditor of the Company and other agenda items, if any.  
 In accordance with the Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by insiders, adopted by the Board pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company is closed for the designated persons from 1st January, 2022 to till 48 hours after the announcement of financial results.  
 The information is also available on the website of the Company viz. www.acinet.com and the website of the Stock Exchange, where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com).  
 For Ahluwalia Contracts (India) Ltd  
 Sd/-  
 Vipin Kumar Tiwari  
 Company Secretary  
 Place: New Delhi Date: 04.02.2022

**Form No. URC-2**  
 Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]  
 1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar of Company, National Capital Territory of Delhi that a Partnership Firm ECO TRACK SYSTEMS may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a Private Limited company limited by shares.  
 2. The principal objects of the company are as follows:  
 Manufacturing, supply and commissioning of RFID Hardware and related services & Solutions, Logistic Services, supply of LED and Solar Hardware & Services, Software Development and trading of Hardware and software  
 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office i.e. 122, Nirman Apartment MayurVihar PH-1, East Delhi-110091N  
 4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Dated this 04th day of February, 2022  
 Name(s) of Applicant  
 1. Somvi Jayawati  
 2. Jena Jayawati

**PUBLIC NOTICE (FORM URC-2)**  
 ADVERTISEMENT GIVING NOTICE ABOUT REGISTRATION UNDER PART I OF CHAPTER XXI OF THE ACT [PURSUANT TO SECTION 374(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 4(1) OF THE COMPANIES (AUTHORIZED TO REGISTER) RULES, 2014]  
 NOTICE IS HEREBY GIVEN that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made to the Registrar of Central Registration Centre (CRC), that BHARAT NAV NIRMAN a partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. 2. The principal objects of the company are as follows: (a) To produce, manufacture, refine, prepare, process, purchase, sell, import, export or generally deal in bricks, fly ash bricks, stone, marble, tiles, refractories, cement, cement blocks, sheets, roofing, electrical goods, water supply or storage equipment, floor polish, door closures, concrete mixtures, elevators, building materials, and any other building or decorative materials made of cement, stone, timber, teak, board, fiber, paper, glass, rubber, plastic or other natural or synthetic substance or chemical. 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the registered office at Shyamliwala, PO & PS, Bhaguwala, Tehsil Najibabad, Bijnor, Uttar Pradesh-2467494. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar of Central Registration Centre (CRC), Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) Plot No. 6/7,8 Sector 5, IIT Memonar, District Gurgaon (Haryana) - 122050 within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.  
 Name (s) of Applicant  
 1. MANISH KUMAR  
 2. DHAN SINGH  
 3. AKSHAY BHAKAR  
 Date: 04.02.2022

**TIGER**  
 CIN:  
 Regd Office: D-174, GF, C  
 Tel. No. 01  
 Website: www.tigerlog  
**Completion of disburse**  
**Tiger Logistics (I**  
 We here by informing our shareholders requirement till date for the purpose 1/- per equity share (on the face value) the Board of Directors of the Company  
**Timeline followed for disbursement**

S.No.	Partic
1	Date of Board Meeting was Record date fixed and decid with Kotak Bank)
2	Dividend Account with Kola transferred the amount of d
3	Record Date was on
4	Completion of payment of li shareholders was
5	Transferring unpaid/undain Dividend Account
6	Re-dispatched OD/Dividen shareholders whose dividen due to any reason.

Please note: any eligible shareholder kindly mail at cswishal@tigerlogistic  
 Place: New Delhi  
 Date: 04.02.2022



**SINTEX INDUSTRIES LIMITED**  
 REGD. OFFICE- Kalol, Gujarat-382 721, India. Web Site: www.sintex.in, E-Mail: share@sintex.co.in CIN: L17110GJ931PLC000454 Tel.No. (02764) 253000 & +91 658855979  
 (₹ In Crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31/12/2021 (Unaudited)	Nine Months ended 31/12/2021 (Unaudited)	Corresponding Quarter ended 31/12/2020 (Unaudited)
(A)	<b>Extract Of Consolidated Financial Results</b>			
1.	Total income from operations (Net)	977.63	2098.46	538.05
2.	Net Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(102.53)	(454.61)	(215.27)
3.	Net Profit/Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(102.53)	(454.61)	(215.27)
4.	Net Profit/Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(103.25)	(454.52)	(214.99)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(103.25)	(454.52)	(214.99)
6.	Equity Share Capital	59.92	59.92	59.41
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	111.03	111.03	111.03
a	Earnings Per Share (of Re. 1/- each):	(1.72)	(7.59)	(3.62)
	2 Diluted:	(1.72)	(7.59)	(3.62)
(B)	<b>Key numbers of Standalone Financial Results</b>			
a	Total income from operations (Net)	990.74	2127.95	558.40
b	Net Profit/Loss Before Tax	(96.25)	(441.87)	(212.09)
c	Net Profit/Loss After Tax	(96.26)	(441.87)	(212.09)

**Notes:**  
 1. The Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results were reviewed and approved by the Interim Resolution Professional on 04.02.2022.  
 2. Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.  
 3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The detailed Unaudited Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the Company's website at www.sintex.in.  
 4. A Company under the Corporate Insolvency Resolution Process by Honourable National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench vide order dated 06.04.2021  
 5. #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.  
 Date: February 4, 2022  
 Place: Ahmedabad  
 For SINTEX INDUSTRIES LIMITED  
 PINAKIN SHAH (Interim Resolution Professional)

**NIYOGIN**  
 CIN:  
 Registered Office: MG 944, C  
 Corporate Office: 311 & 31:  
 Vidy  
 Tel No +91 22 625146461 v  
 N:  
 Members are hereby inf other applicable provision read with Rule 20 and Administration) Rules, 2 Obligations and Disclos 'Listing Regulations') ( enactment(s) thereof for on General Meetings ( Secretaries of India and the Ministry of Corporate 2020 dated April 8, 2020, General Circular No No. 33/2020 dated Septe dated December 31, 2021, General Circular "MCA Circulars") and an of the members of the C (only through remote) businesses as set out in 2022 together with Exph **Special Resolutions:**  
 1. Appointment of Dr. A Director of the Com  
 2. Appointment of Mr. T Director on the Boa Officer of the Com  
 3. To consider and app (Indian Rupees One Private Limited ("P The Company is please vote by electronic near Securities Depository Li and 110 of the Act read of the Listing Regulatio in compliance with the I dispatch of Postal Ball electronic mode to the Friday, January 28, 202 are registered with Participants/ Registrar a Limited Members who the Company can now RTA on int.helpdesk@i form are requested to re Participant(s) only. Postal Ballot Notice t instruction for e-voting www.niyogin.com, BSE





